



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

7 माघ 1931 (श0)  
(सं0 पटना 74) पटना, बुधवार, 27 जनवरी 2010

सं0 2/सी03- 30125/2001—332

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

संकल्प

11 जनवरी 2010

श्री प्रभात शर्मा, वि0 प्र0 से0, कोटि क्रमांक 1286/99, 490/08 तत्कालीन कार्यपालक दण्डाधिकारी लखीसराय सम्प्रति अंचलाधिकारी, खजौली, मधुबनी को विभागीय अधिसूचना सं0 5309, दिनांक 26 जून 2000 द्वारा कार्यपालक दण्डाधिकारी पलामू के पद पर अधिसूचित किया जाता। तत्पश्चात विभागीय अधिसूचना संख्या 8799, दिनांक 29 नवम्बर 2000 द्वारा कार्यपालक दण्डाधिकारी मधेपुरा के पद पर पदस्थापन संबंधी निर्गत अधिसूचना के स्मारोपरान्त भी स्थानांतरण आदेश का अनुपालन नहीं कर सरकार के आदेश की अवेहलना करने से संबंधित प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिये विभागीय आदेश सं0 6878, दिनांक 29 नवम्बर 2001 द्वारा श्री शर्मा को निलम्बित करते हुए आरोपों की जाँच उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चलाने का निर्णय लिया गया। विभागीय संकल्प संख्या 5893, दिनांक 26 जुलाई 2002 द्वारा विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु प्रमंडलीय आयुक्त सहरसा को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

2. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन, आरोपित पदा0 के बचाव बयान की सम्यक समीक्षा सरकार स्तर पर की गयी एवं समीक्षोपरान्त विभागीय स्थानान्तरण आदेश की अवेहलना करने के प्रमाणित आरोपों के लिये श्री शर्मा को निलंबण से मुक्त करते हुए विभागीय संकल्प संख्या 3157, दिनांक 12 अप्रील 2005 द्वारा (क) दो वेतन वृद्धियों पर असंचायात्मक प्रभाव से रोक (ख) निलम्बन अवधि में बिताई गयी अवधि के लिये इन्हें देय जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त अन्य कुछ देय नहीं होगा, संबंधी दण्ड संसूचित किया गया।

3. श्री शर्मा द्वारा उपर्युक्त दण्ड के विरुद्ध दिनांक 23 जून 2005 को अपीलवाद समर्पित किया गया। आरोपित पदाधिकारी द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अपीलवाद में ऐसा कोई ठोस तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके आधार पर पुनर्विलोकन अर्जी पर पुनर्विचार किया जा सके।

4. श्री शर्मा को चूँकि माननीय मुख्यमंत्री के स्तर से दण्ड की स्वीकृति दी गयी है, इसलिये मंत्रिमंडल सचिवालय के पत्रांक 2326, दिनांक 24 दिसम्बर 2001 की कंडिका (ख) सहपठित बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005-32(4) के आलोक में इनके पुनर्विलोकन अर्जी को मंत्रिपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। मंत्रिपरिषद द्वारा श्री शर्मा के अपीलवाद को अस्वीकृत कर दिया गया है।

अतएव मंत्रिपरिषद के निर्णय के आलोक में श्री शर्मा द्वारा समर्पित अपील अर्जी को अस्वीकृत किया जाता है।

आदेश:—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति संबंधित पदाधिकारी श्री प्रभात शर्मा, वि० प्र० से० एवं अन्य को दी जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,  
चन्द्र प्रकाश सहाय,  
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 74-571+10-डी०टी०पी०।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>